

बगिया | by Vijay Puri Goswami

उजड़ी बगिया महका दो मन की चिड़िया चहका दो
चरणों में ज़रा जगह दो दिल से श्याम लगा दो
हारे के सहारे ओ हारी बाज़ी जिता दो
उजड़ी बगिया महका दो

हुकुम बजाऊंगा दर ना छोड़ जाऊंगा
आठों याम चाकरी मैं श्याम नाम गाऊंगा
आया दरबार नया नौकर लिखा दो
हारे के सहारे ओ हारी बाज़ी जिता दो
उजड़ी बगिया महका दो

महके दरबार तेरा खुशबू मैं बन जाऊं
क्या क्या जतन करूँ दास तेरा हो जाऊं
बागबा मेरी बगिया को अपना बना लो
हारे के सहारे ओ हारी बाज़ी जिता दो
उजड़ी बगिया महका दो

नसीबा संवारा बिगड़ा लाखों को तार दिया
मोरछड़ी का झाड़ा भगतों पे वार दिया
आया सुरेश दर पे हाथ बढ़ा दो
हारे के सहारे ओ हारी बाज़ी जिता दो
उजड़ी बगिया महका दो

<https://bhaktivandana.com/lyrics/%e0%a4%ac%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-by-vijay-puri-goswami/>